



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 04.02.2021

थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम ताना में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की गोली मारकर हत्या के प्रयास में अभियुक्त बड़े भाई को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.01.2021 को ग्राम ताना में पारिवारिक विवाद के चलते श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री सतपाल निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के बड़े पुत्र अंकुर खैवाल ने अपने छोटे भाई प्रियम खैवाल को पारिवारिक विवाद के चलते कमर पर तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था । घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री सतेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा अपने पुत्र अंकुर खैवाल के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर दिनांक 02.02.2021 को तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना गढीपुख्ता को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।

आज दिनांक 04.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम ताना में दबिश की कार्यवाही करते हुए, अभियुक्त अंकुर खैवाल को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस 315 बोर के बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- अंकुर खैवाल पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ताना, थाना गढीपुख्ता, जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री लविक त्यागी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
3. का0 प्रवीण कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
4. का0 मनोज कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा शराब तस्क़र गिरफ्तार, कब्जे से 09 लीटर अवैध रेक्टीफाईड शराब व 01 किलो यूरिया बरामद ।

दिनांक 04.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अवैध शराब निर्माण/तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान उंगडुगरा पुल से 09 लीटर अवैध रेक्टीफाईड शराब एवं 01 किलो यूरिया सहित 01 तस्क़र को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-


1. अमित पुत्र मदन निवासी मौहल्ला रायजादगान, कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध रेक्टीफाईड शराब 09 लीटर ।
2. अवैध यूरिया 01 किलो ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
2. का0 मुस्तकीम थाना कांधला जनपद शामली ।
3. का0 फिरोज थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा खाईबाडी करता अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा सट्टा, गत्ता, पैस एवं 1280/- रू0 नकद बरामद:-

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा दिनांक 03.02.2021 को समय 20.30 बजे ग्राम बधेहू बिजली खम्बे के पास से खाईबाडी करते अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम बधेहू थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पर्चा सट्टा, गत्ता, पैस एवं 1280/- रू0 नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 26/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है।